



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1937 (श10)

(सं0 पटना 1168) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर 2015

सं0 08/आरोप-01-138/2014,सां0प्र0-12289

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

21 अगस्त 2015

श्री राधेश्याम पासवान, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक-460/04, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हलसी, लखीसराय के विरुद्ध विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता बरते जाने, संबंधी स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने, सरकार के आदेश का उल्लंघन करने आदि से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अनुशंसा के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3824, दिनांक 10.04.2007 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4229, दिनांक 19.04.2007 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7538, दिनांक 31.07.2009 द्वारा श्री पासवान को निलंबन मुक्त किया गया। श्री पासवान के दिनांक 31.07.2009 को सेवानिवृत्त होने के कारण विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1078, दिनांक 02.02.2010 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत सम्पत्तिवर्तित किया गया।

इस बीच श्री पासवान की मृत्यु दिनांक 05.07.2014 को होने के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10378, दिनांक 17.07.2015 द्वारा स्व० पासवान के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए विषयांकित आरोप के प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया।

परन्तु श्री पासवान के निलंबन अवधि दिनांक 10.04.2007 से दिनांक 31.07.2009 तक पर निर्णय नहीं लिया जा सका। श्री पासवान के मृत्यु दिनांक 05.07.2014 तक विभागीय कार्यवाही पूर्ण नहीं होने को दृष्टिगत कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 11 (2) के आलोक में स्व० पासवान के

निलंबन अवधि को विनियमित पूर्णतः कर्तव्य अवधि के रूप में करते हुए पूर्ण वेतन-भत्ता के भुगतान का निर्णय लिया जाता है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1168-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>